



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

आसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 1978/कार्तिक 19, 1900

No. 217] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 1978/KARTIKA 19, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 73-ईटीसी(पीएन)/78

विषय:—1978-79 अवधि के लिए लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति।

विसं० 6/1/78-ई 1.—निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम सं० ई(सी)ओ, 1977/एएम (77) दिनांक 10 नवम्बर, 1978 के साथ साथ पढ़ी जाने वाली यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 28-ईटीसी(पी एन)/78 दिनांक 19 मई, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिस में लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति निहित है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 1978-79 के दौरान लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति इसके बाद इस सार्वजनिक सूचना में बताई गई निर्यात नीति के अनुसार होगी।

3. लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं अपनाई जाएंगी:—

- (1) इमारती लकड़ी का अर्थ है टूट सहित कुन्हे, अपरिष्कृत बर्गाकार या गोलाकार;
- (2) टूट का अर्थ है पेड़ का आधार और गिरने के पश्चात् भूमि पर बची हुई जड़ें;
- (3) चिरी हुई इमारती लकड़ी का अर्थ है शहरीर, तख्ते, रीपर्स, कंठियां, बाड़-खंडे या खम्बे, इमारती लकड़ी से तैयार किए हुए स्लीपर्स और कंठियां आदि पकी हुई हों या न हों किन्तु

गोलाकार या समतल भी हुई हों और भारतीय मानक विशिष्टीकरण सं० 707-1776 में यथा निर्धारित उनके चीरने की विधि किसी भी प्रकार की हो;

- (4) परिष्कृत इमारती लकड़ी का अर्थ है जो केवल चिरी ही नहीं गई अपितु प्लेन कर दी गई है और अपेक्षित हाथस के लिए उस पर काम कर दिया गया है अर्थात् जो अंतिम उपयोग के लिए तैयार कर दी गई हो और इसमें (क) बीमीर, प्लाईवुड, कोरबुड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य ऐसे कारखाने द्वारा बनाए गए उत्पाद और साथ ही साथ (ख) फर्नीचर की मर्से, दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम, दरवाजों के हैंडल, संगीत के औजार और अन्य उपयोग्य वस्तुएं प्रसेम्बल या नाकड डाउन हालत तक में भी शामिल हैं।

4. ई(सी)ओ, 1977 की अनुसूची-1 के भाग क की क्रम सं० 33 पर शामिल की गई लकड़ी और इमारती लकड़ी की जातियों के निर्यात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

5. सभी रूप में और सट्टे और स्वाम सहित लकड़ी और इमारती लकड़ी की निम्नलिखित जातियों के निर्यात की स्वीकृति स्वतन्त्र रूप से खुले सामान्य लाइसेंस सं० 5 के अन्तर्गत दी जाएगी।

इमारती लकड़ी की किस्में

ट्रेड नाम	व्यावसायिक नाम
1. एनी	अटोकार्पस हिर्मुटा
2. बेलापाहल	बेटेरिया इण्डिका
3. बिर्च	बेटुला एस०पी०पी०
4. बर्ड चेरी	प्रुनेस पेडस
5. बोला	मोरेस लेईविगाटा

ट्रेड नाम	बानस्पतिक नाम
6. बेम्प	मिकेलिया एस०पी०पी०
7. हल्जू	अदीना काहॉफोलिया
8. कासी	ब्रिडेलिया रेटूसा
9. कुम्भी	केरिया आर्बोरिया
10. लाली	अमूरा वॉलिची
11. मेपले	(एकिर एस० पी०पी०) बर्स और स्टम्प्स से हटकर)
12. रोडोडेनड्रोन	रोडोडेनड्रोन एस०पी०पी०
13. —	हिमालय क्षेत्र में टैम्परेट और सब- एल्पाइन हार्डवुड एसपीपी
14. सकेय देवदारु	हाइमोक्विलम मेलाबेरीकम
15. सदाबहार (यू)	टाक्स बककाटा
16. राज त्रिख	केसिया किसदुहा
17. पड़ोफ	पेट्रीकार्पस डालबर्गीफोइन
18. रेड सेन्डर्स	पेट्रीकार्पस सेन्टालिनम
19. स्प्रूस	पिकेया एसपीपी
20. एबोनी लकड़ी	डायोमपाइरोस इबोलम

#### 6. रोजवुड : (डेलबोजिया लेटिफोलिया)

जैसा कि पहले प्रलग से बताया गया है रोजवुड के निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर ही दी जाएगी।

#### 7. चन्दन की लकड़ी :

लट्टे और स्क्व की शक्ल में चन्दन की लकड़ी की निर्यात (नियंत्रण) प्रादेश की अनुसूची-1 के भाग क में शामिल कर दिया गया है और उसे निवेद्य घोषित कर दिया गया है, प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना का पैरा 4 देखें। चन्दन की लकड़ी (पूर्ण या बिस्) के निर्यात की स्वीकृति स्वनन्व रूप से लवान बिल (बिलों)/सूचि सीमा शुल्क परिशिष्टों की प्रस्तुत करने पर पुष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

#### 8. परिष्कृत इमारती लकड़ी :

उपयोग में आने वाली इमारती लकड़ी को ध्यान में रखे बिना परिष्कृत इमारती लकड़ी खुले सभास्य लाइसेंस 3 के अधीन अनुमेष होगी।

#### 9. अन्य मर्चे :

लकड़ी और इमारती लकड़ी की वे मर्चे जिन का ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है के निर्यात पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। कृषि मंत्रालय (निर्यात संवर्धन डिवीजन), नई दिल्ली की पूर्ण निकासी प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय को भेजे जाएं।

का० वें० लेखात्रि  
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 10th November, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No 73-ETC (PN)/78

Sub:—Export Policy of Wood and Timber for the period 1978-79.

File No. 6/1/78-E I.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 28-ETC (PN)/78 dated the 19th May, 1978, as amended, containing the export policy for wood and timber for 1978-79, read with Exports (Control) Order, No. E(C)O, 1977/AM(77) dated the 10th November, 1978.

2. On a review of the situation, it has been decided that the policy for export of Wood and Timber during 1978-79, shall hereafter be as provided in this Public Notice.

3. For the purpose of Export Policy of Wood and Timber the following definitions will be adopted :—

(i) "Timber" means, logs, rough squared or in the round including stumps;

(ii) "Stump" means the base of a tree and its roots left in the ground after felling ;

(iii) "Sawn timber" means beams, planks, reepers, rafters, fence posts or poles, sleepers or scantlings fashioned from timber, whether seasoned or not, in the round or dressed conditions, whatever be the manner of sawing as laid down in the Indian Standards Specification No. 707-1776; and

(iv) "Processed timber" means timber which has not only been sawn but also planed and worked to the required condition, that is to say, is ready for end-use, and includes (a) veneer, ply-wood, core-board, particle board and such other factory made products as well as (b) items of furniture, door and window frames, door handles, musical instruments and other consumer items, in assembled or knocked down condition.

4. Export of the species of wood and timber included at S. No. 33 of Part 'A' of Schedule I to the E(C)O, 1977, shall not be allowed.

5. Export of the following species of wood and timber will be freely allowed in all forms including logs and sawn under OGL 3.

#### Variety of Timber

Trade Name	Botanical Name
1. Aini . . . . .	Artocarpus hirsuta
2. Vellapine . . . . .	Vateria indica
3. Birch . . . . .	Betula spp.
4. Bird Cherry . . . . .	Prunus padus
5. Bola . . . . .	Morus laevigata
6. Champ . . . . .	Michelia spp.
7. Haldu . . . . .	Adina cordifolia
8. Kasi . . . . .	Bridelia Retusa
9. Kumbi . . . . .	Careya arborea
10. Lali . . . . .	Amoora wallichii
11. Maple . . . . .	Acer spp. (other than burrs and stumps)

Trade Name	Botanical Name
12. Rhododendron . . .	Rhododendron spp.
13. —	Temperate and sub-alpine hard-wood spp. in the Himalayan region.
14. White Cedar . . .	Dysoxylum malabaricum
15. Yew . . .	Taxus baccata
16. Raj Brikh . . .	Cassia fistula
17. Padauk . . .	Petrocarpus dalbergioides
18. Red Sanders . . .	Pterocarpus santalinum
19. Spruce . . .	Picea spp.
20. Ebony Wood . . .	Diospyros ebenum

#### 6. Rosewood (*Delborgia latifolia*):

Export of rosewood will be allowed within a limited ceiling as already announced separately.

#### 7. Sandalwood :

Sandalwood in log and sawn form has been included in Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order and banned vide para 4 of this Public Notice. Export of Sandalwood (powder and chips) will be freely allowed by endorsement on presentation of shipping bill (s)/and customs Appendices.

#### 8. Processed Timber :

Processed Timber, irrespective of the species of the timber used, will be allowed under OGL.3.

#### 9. Other items :

Export of items of wood and timber not mentioned above, will be considered on merits. Applications should be submitted to the Office of the Chief Controller of Imports and Exports after taking prior clearance from the Ministry of Agriculture (Export Promotion Division), New Delhi.

K.V. SESHADRI

Chief Controller of Imports & Exports

